

NBT नवभारत टाइम्स

Bihar News : गया में चल रहा था पतंजलि के सामानों का उत्पादन, 20 लाख का नकली उत्पाद जप्त, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Suman Singh | LipiUpdated: 14 Feb 2022, 5:35 pm



गया : बाबा रामदेव के ब्रांड पतंजलि (patanjali goods) के सामानों का उत्पादन गया में चल रहा था। इस ब्रांड का 20 लाख रुपए का नकली सामान जप्त किया गया है। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी पतंजलि के नकली सामानों का उत्पादन कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 20 लाख रुपए का नकली सामान जब्त किया है। जब्त सामानों में सरसों तेल आशीर्वाद आटा सहित कई उत्पाद शामिल हैं। मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है। गया के रामपुर थाना में एफआइआर दर्ज कर लिया है।

ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज और पुलिस ने मिल कर की छापेमारी

वहीं, इस संबंध में अंजनी कुमार फील्ड ऑफिसर ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने बताया की हमारी कंपनी को इमामी लिमिटेड, मेडिको लिमिटेड एवं अन्य कई सारी कंपनियों के ब्रांड की सेफ्टी देखती है। यदि कहीं पर नकली प्रोडक्ट सेल होता है तो हम पुलिस और अथॉरिटी के साथ उस जगह पर रेड करते हैं। साथ ही आरोपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराते हैं। महीनों से हमें सूचना मिल रही थी कि बिहार शरीफ (bihar sharif) और गया दोनों जगहों पर नकली प्रोडक्ट का सेल किया जा रहा है। पहले हमारी टीम ने बिहार शरीफ जाकर देखा तो वहां पता चला कि यहां उसकी दुकान है। जबकि फैक्ट्री गया में है। हमारी टीम गया और एसपी हरप्रीत कौर से बात की। गया एसएसपी के निर्देश पर रामपुर पुलिस (rampur police)की टीम ने हमारी टीम साथ छापेमारी की। लाखों का फिनिक्स प्रोडक्ट एवं अनफिनिश प्रोडक्ट रॉ मैटेरियल, रैपर, मशीनरी आदि सामान बरामद हुआ है। छापेमारी में कम से कम 20-21 लाख का नकली प्रोडक्ट मिला है। इसके साथ ही दो अभियुक्त पर केस किया गया है और मेन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/gaya/bihar-news-production-of-fake-patanjali-goods-was-going-on-in-gaya-fake-goods-worth-20-lakhs-seized-main-accused-arrested/articleshow/89566842.cms>